



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 ज्येष्ठ 1940 (श0)
(सं0 पटना 498) पटना, बुधवार, 30 मई 2018

सं० 03/नमामि गंगे-06-11/2018-1227/न0वि0एवंआ0वि0
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

22 मई 2018

विषय:— भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना के अंतर्गत 100% अनुमानित लागत कुल रु० 260.871 करोड़ रुपये (दो सौ साठ करोड़ सत्तासी लाख दस हजार रु० मात्र) के व्यय पर भागलपुर शहर में **Interception & Diversion** एवं **STP** परियोजना के निर्माण हेतु जिसमें केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत राशि 254.13 करोड़ रुपये (दो सौ चौवन करोड़ तेरह लाख रु० मात्र) पर सहमति तथा इस योजना में राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी को भुगतान हेतु सेंटेंज की राशि कुल 6.741 करोड़ रु० (छः करोड़ चौहत्तर लाख दस हजार रु० मात्र) के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति।

भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी घरों/प्रतिष्ठानों एवं शहर के प्रमुख 21 नालो को सिवरेज प्रणाली से जोड़ा जाना है। भूमि की उपलब्धता के आधार पर **Interception & Diversion** एवं **STP** का डी०पी०आर० तैयार कर **NMCG** भारत सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा गया था, जिसे **NMCG** द्वारा पत्रांक **T-13/2017-18/057 NMCG Bhagalpur** दिनांक 12.10.2017 को योजना के क्रियान्वयन के प्रस्ताव के पर राशि 254.13 करोड़ रुपये (दो सौ चौवन करोड़ तेरह लाख रु० मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस योजना अन्तर्गत सिवरेज प्रणाली के माध्यम से आवासीय तथा अन्य प्रतिष्ठानों से निकलने वाले **Sewage** को नाला के जरिये **Sewage Treatment Plant** तक पहुँचाया जायेगा। सिवेज को ट्रीटमेंट उपन्नात प्रवाह किया जाएगा, ताकि गंगा में होने वाले प्रदूषण को रोका जा सके। आवश्यकतानुसार बीच में 10 **Pumping Station** का भी निर्माण प्रस्तावित है। ताकि **Sewage** को **STP** के माध्यम से ट्रीट किया जाय। योजना का अनुमानित लागत (सेन्टेज सहित) 260.871 करोड़ रुपये (दो सौ साठ करोड़ सत्तासी लाख दस हजार रु० मात्र) है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु बुडको को कार्यकारी एजेंसी नामित किया गया है।

योजना का Major Component निम्नवत् है:-

Sl. No.	Major Head	Quantity
1.	Development of Sewerage Treatment Plant	65 MLD Capacity
2.	Sewage Pumping Station	10 Nos.
3.	Number of Nalas to be Tapped	21 Nos.
4.	Operation & Maintenance	15 Years.

2. योजना का उद्देश्य |—भागलपुर बिहार राज्य का एक प्राचीन शहर है। इसके साथ यह पूर्वी बिहार का शहर है। भागलपुर शहर काफी तेजी से विकास कर रहा है। गंगा नदी लगभग 445 कि० मी० की लम्बाई में बिहार से गुजरती है। गंगा नदी के किनारे अवस्थित शहर के untreated sewage को गंगा नदी में प्रवाहित नहीं किये जाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए Interception & Diversion एवं STP का निर्माण किया जाना है। यह निर्माण वर्ष 2050 तक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। इस योजना अन्तर्गत 21 नाला यथा: 1- Barari Ghat Nala, 2. Burhanath Nala, 3. Hanuman Ghat Nala, 4. Mayaganj Bari Khenjarpur (Maya Ganj Nala-2), 5. Maharaj Ghat, 6. Khirni Ghat, 7. Koyla Ghat, 8. Adampur, 9. Mandir Ghat, 10. Mansoorganj, 11. Sakhichand, 12. Shanti Bazar, 13. Naya Bazar, 14. Naya Bazar 2nd Nala, 15. University Nala, 16. Champa Nala, 17. Kali Ghat Nala, 18. Champa Nagar Hari Tola, 19. Champa Nala road, 20. Ward No. 42 Nala, 21. Krishna Road Nala. से प्राप्त सिवेज का ट्रीटमेंट किया जाएगा। भागलपुर के सभी आवासीय तथा अन्य प्रतिष्ठानों से निकलने वाले Sewage को नाला के जरिये संबंधित Sewage Treatment Plant तक पहुँचाया जायेगा। ताकि Sewage को STP के माध्यम से ट्रीट किया जाएगा। निर्धारित मापदण्ड के अनुसार Sewage को शोधित कर कृषि कार्य हेतु उपयोग किया जाएगा।

3. योजना का भौतिक आकार एवं कार्यान्वयन की समय सीमा |—वर्तमान समय में नालों से प्राप्त होने वाले सिवेज को ट्रीट करने का कोई प्रावधान नहीं है। जिसके वजह से नाले से प्राप्त होने वाले पानी सीधे गंगा में प्रवाह हो रहा है। नाले से प्राप्त होने वाले सिवेज को साफ करने हेतु Interception & Diversion एवं STP का निर्माण किया जाना है। इस योजना को 36 माह में पूरा किया जाना है। STP के सफल अधिष्ठापन के उपरान्त संवेदक द्वारा अगले 15 वर्षों तक इसका रख-रखाव किया जाना है।

4. योजना के लिये आवश्यक निधि के स्रोत |—भागलपुर शहर में नाले से प्राप्त होने वाली गंदे पानी को ट्रीटमेंट करने हेतु 65 MLD क्षमता के STP एवं Interception & Diversion (NMCG-Namami Gange Programme with 100% funding by NMCG) भारत सरकार द्वारा संपोषित योजना है। वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या— एम-4-26/2013/653/वि० पटना, दिनांक 25.01.2016 के अनुरूप सेंटेंज की राशि कुल 6.742 करोड़ रु० (छः करोड़ चौहत्तर लाख बीस हजार रु० मात्र) का वहन किया जाना है। इस योजना की प्राक्कलित राशि रुपये 254.13 करोड़ रुपये (दो सौ चौवन करोड़ तेरह लाख रु० मात्र) है, जिस पर सेंटेंज की कुल राशि रुपये 6.741 करोड़ जोड़ने पर कुल लागत राशि रुपये 260.871 करोड़ रुपये (दो सौ साठ करोड़ सत्तर लाख दस हजार रु० मात्र) आती है।

राशि की वर्षवार व्यय विवरणी निम्नलिखित है:-

राशि करोड़ में।

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	केन्द्रांश (100%)	राज्यांश सेंटेंज राशि (2.653%)	वित्तीय वर्ष में कुल राशि
1	2	3	4	5
1	2018-2019	65.21	1.730	66.94
2	2019-2020	86.95	2.306	89.256
3	2020-2021	65.21	1.730	66.94
4	2021-2022 (O&M Cost for 15 years)	36.76	0.975	37.735
कुल राशि		254.13	6.741	260.871

Operation & Maintenance :- इस परियोजना का O&M कार्य संवेदक द्वारा 15 वर्षों तक किया जाना है।

5. उक्त प्रस्ताव पर दिनांक 15.05.2018 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के मद सं०-19 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

6. अतः भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना के अंतर्गत 100% अनुमानित लागत कुल रु० 260.871 करोड़ रुपये (दो सौ साठ करोड़ सत्तासी लाख दस हजार रु० मात्र) के व्यय पर भागलपुर शहर में **Interception & Diversion** एवं **STP** परियोजना के निर्माण हेतु जिसमें केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत राशि 254.13 करोड़ रुपये (दो सौ चौवन करोड़ तेरह लाख रु० मात्र) पर सहमति तथा इस योजना में राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी को भुगतान हेतु सेंटेंज की राशि कुल 6.741 करोड़ रु० (छः करोड़ चौहत्तर लाख दस हजार रु० मात्र) के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।

आदेश— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त, भागलपुर/जिला पदाधिकारी, भागलपुर /नगर आयुक्त, नगर निगम, भागलपुर/महालेखाकर, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

आदेश से,
चैतन्य प्रसाद,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 498-571+200-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>